



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 फाल्गुन 1931 (श0)  
(सं0 पटना 187) पटना, शुक्रवार, 19 मार्च 2010

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं  
18 मार्च 2010

एस0 ओ0 59, दिनांक 19 मार्च 2010—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पक्ष से भी परामर्श करने के पश्चात् बिहार-राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब) के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित / पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची-1(ब) के स्तंभ-02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-02 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तंभ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1(अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष(2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जुलाई, 2009	160	4.63X4.93	3652.15
अगस्त, 2009	162	4.63X4.93	3697.80
सितम्बर, 2009	163	4.63X4.93	3720.63
अक्टूबर, 2009	165	4.63X4.93	3766.28
नवम्बर, 2009	168	4.63X4.93	3834.75
दिसम्बर, 2009	169	4.63X4.93	3857.58
योग:	—		22529.19
औसत:	22529.19 ÷ 6 =		3754.87

## अनुसूची- I(ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या	कुल
1. 62 नियोजन- सामान्य कार्य	1. 3323 दि0-01.07.08	69- नियोजन
2. 07 नियोजन- सामान्य कार्य	2. 4993 दि0-01.10.08	

- (1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर (2) अल्मुनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट ग्री-स्ट्रेटेटेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग (23) दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगेरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग (26) प्लाईउड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) ढलाई (फाउन्ड्री उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) बिस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलाई उद्योग (33) हैंडलूम उद्योग (34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स (35) डिस्ट्रीलरीज (36) प्लास्टिक उद्योग (37) मिनरल ग्राईडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोड़कर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं (42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल (43) तेल मिल (44) मुद्रणालय (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट (47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले (48) कोल्ड स्टोरेज (49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले) (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सीरीज (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं (55) अबरख कार्य (खादान को छोड़कर) कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग (57) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग (60) पौट्रीज (61) औटोमोबाईल इंजिनियरिंग शौप्स (62) हार्ड कोक भट्टे (63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग ।

## अनुसूची -II

क्र0 सं0	कामगारों की कोटि	मूल न्यूनतम मजदूरी+भी0डी0ए0 -01.04.09 एवं 01.10.09 तक (रुपये में)	भी0डी0ए0 प्रभावी की तिथि -01.04. 2010 से	कुल मजदूरी (3+4) 01.04.10 से
1	2	3	4	5
1	अकुशल	89.00+13.00+02.00 = 104.00 प्रतिदिन	10.00	114.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल	92.00+13.00+02.00=107.00 प्रतिदिन	11.00	118.00 प्रतिदिन
3	कुशल	113.00+16.00+03.00=132.00 प्रतिदिन	13.00	145.00 प्रतिदिन
4	अतिकुशल	138.00+19.00+04.00=161.00 प्रतिदिन	16.00	177.00 प्रतिदिन
5	पर्यवेक्षीय / लिपकीय	2553.00+359.00+69.00= 2981.00 प्रतिमाह	296.00	3277.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित पुनरीक्षित की गई हो तो उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर, 2009 के औसत के आधार पर अप्रैल, 2010 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छ : महीने के औसत अखिल भारतीय

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-401 /09-श्र0नि0-1201)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

गरीब साहु,

सरकार के अपर सचिव।

18 मार्च 2010

एस0ओ0 60, एस0 ओ0 59, दिनांक 19 मार्च 2010 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-401 /09 श्र0नि0-1202)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

गरीब साहु,

सरकार के अपर सचिव।

*The 18th March 2010*

S.O. 59 dated 19th March 2010—In exercise of the powers conferred by section - 3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section (1) of Section-5 of the said act and also consulting the Bihar Minimum Wages Advisory Board, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for variable dearness Allowance in the Minimum Rate of Wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the employment mentioned in column-(2) of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-2 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

**Schedule-1 (A)**

Month & Year	Index No. Base Year ( 2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year ( 1960-100)
1	2	3	4
July, 2009	160	4.63x4.93	3652.15
August, 2009	162	4.63x4.93	3697.80
September, 2009	163	4.63x4.93	3720.63
October, 2009	165	4.63x4.93	3766.28
November, 2009	168	4.63x4.93	3834.75
December, 2009	169	4.63x4.93	3857.58
Total	-		22529.19
Average		22529.19÷6=	3754.87

**SCHEDULE-I(B)**

Name of employment	Notification No	Total
1. 62-General Work	1. 3323 dt.1-07-08	69, Employment
2. 07- General Work	2. 4993 dt. 1-10-08	

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khandsari industry (4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry (6) Cement

Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry (8) Glass Sheet Industry (9) Gun factories (10) Religious and Social Institution (11) Paper Industry (12) Laundry and washing (13) Hosieries Manufactory Corrugated Board, Straw (14) Manufacture of Sindur & Rang (15) Manufacture of Leather good (16) Wood works & furniture (17) Ice Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry (23) Dafti Card Board, Mill Board Paper Board corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Boar Manufactory (24) Electronics Industry (25) Cement Hume pipe, Electric pole and railway Sleeper manufactures Industry (26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (on which manufacture (30) Biscuit Industry (31) Coal briquette Industry (32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals, Nurshing Home and Clinic (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral Grinding Industry (38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments and article of artistic design (41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills and Dal Mills (43) Oil Mills (44) Printing Press (45) Any Shops and establishment (46) Public Motor Transport (47) Any woolen carpet making or shawl weaving establishment (48) Coal Storage (49) Minor Engineering Industry (excluding Automobile Engineering Shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction and Irrigation (51) Construction or Manufactory of Road or in Building Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food stuff (54) Hotels Eating House and Restaurants. (55) Mica work (Factory and Establishment excluding Mine) (56) Cinema industry (57) Any University, Educational, Research or cultural institutions. (58) Private Security (59) Refectories Fire Bricks & Ceramic Industry (60) Potteries (61) Automobile Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Service (64) Frittered Rice (65) Electro Casting and Metal Furnishing 66. Engineering Industries (Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc., works (68) Jute Industry and Similar works (69) Information Technology.

#### SCHEDULE -II

Sl. No.	Categories of Workers	Basic Minimum Wage+ V.D.A. date 1-04-09 & 01.10.09 (In. Rs.)	V.D.A. Effective date 01.04.2010 (In Rs.)	Total wage (3+4) 01-04-10
1	Unskilled	89.00+ 13.00+02.00= 104.00 per day	10.00	114.00 P.day
2	Semi skilled	92.00+ 13.00+02.00= 107.00 Per day	11.00	118.00 P.day
3	Skilled	113.00+ 16.00+03.00= 132.00 Per day	13.00	145.00 P.day

Sl. No.	Categories of Workers	Basic Minimum Wage+ V.D.A. date 1-04-09 & 01.10.09 (In. Rs.)	V.D.A. Effective date 01.04.2010 (In Rs.)	Total wage (3+4) 01-04-10
4.	Highly Skilled	138.00+ 19.00+04.00= 161.00 per day	16.00	177.00 P.day
5.	Supervisory/ Clerical	2553.00+ 359.00+69.00= 2981.00 Per month	296.00	3277.00 P.month

These rates of variable dearness Allowance will be based on the average of all India Consumer price index on which the variable Dearness Allowance has been fixed / revised in the above schedule employments. there will be increase or decrease in wage of rates shown in column 4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above schedule employment and will be deemed as variable Dearness Allowance components . But even it the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised .The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of July to December, 2009 payable at the aforesaid rates from April,2010 and there after increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of all India Consumers Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No. 5/ M.W.- 401 /09 L&E—1201)

By order of the Governor of Bihar,

GARIB SAHU,

*Additional Secretary to Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 187-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>